



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248319
CG-DL-E-24082023-248319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3632]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2023/भाद्र 2, 1945

No. 3632]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2023/BHADRA 2, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

का.आ. 3792(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा (3क की उप) धारा-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में NH-30 के कि.मी.122.800 केरलापाल (मलगेर नदी), पर वृहद पुल एवं मध्यम पुल निर्माण (चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर सहित/2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप) धारा-1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी अर्जन -एवं भू (राजस्व) अधिकारी सुकमा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप) धारा-2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में NH-30 के कि.मी. 122.800 केरलापाल (मलगेर नदी) पर वृहद पुल एवं मध्यम पुल निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: सुकमा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सुकमा					
गांव का नाम: केरलापाल					
1	1048	सरकारी (शासकीय)	बंजर भूमि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
2	1049	निजी (निजी)	कृषि भूमि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
3	1052	सरकारी (शासकीय)	बंजर भूमि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
4	1053	सरकारी (शासकीय)	नदी	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
5	1054	सरकारी (शासकीय)	बंजर भूमि	0.485 (हेक्टेयर)	0.485
कुल योग					1.265

[फा. सं. RO/NH/CG-2022-23/LA/3A1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2023

S.O. 3792(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Construction of new bridge in the stretch of land from km. 122.800 Kerlapal (Malgerbor River) in the District of Sukma in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Land Acquisition Officer and SDO (Revenue) Sukma (C.G) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-30 in the stretch of land from Km. 122.800 Kerlapal (Malgerbor River) in the District of Sukma in the state of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: SUKMA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sukma					
Village: Kerlapal					
1	1048	Government (Govenrment)	Barren Land	0.17 (Hectare)	0.17
2	1049	Private	Agriculture Land	0.05 (Hectare)	0.05
3	1052	Government (Govenrment)	Barren Land	0.28 (Hectare)	0.28
4	1053	Government (Govenrment)	River	0.28 (Hectare)	0.28
5	1054	Government (Govenrment)	Barren Land	0.485 (Hectare)	0.485
Total					1.265

[F. No. RO/NH/CG-2022-23/LA/3A1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.